



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 303] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1979/आश्विन 2, 1901
No. 303] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1979/ASHVINA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त संचालय

(राजस्व विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 548(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अभिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अभिसूचना सं. 145-सी.शु. [सा. का. नि. सं. 429(अ)] तारीख 1 जुलाई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अभिसूचना के नीचे की

अनुसूची में क्रम सं. 1 और उससे सम्बन्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
1	आष्ट्रिया के शिलिंग	152

[सं. 195-सी.शु./फा. सं. 503/4/79-सी.शु.-6]

ए. बोर्डिया, अधर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 548(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 145-Customs [G.S.R. No. 429(E)] dated the 1st July, 1979.

In the Schedule below in the said notification,—for serial No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
1	Austrian Schillings	152

[No. 195-Cus./F. No. 503/4/79-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.